## STATEMENT OF IMMOVABALE PROPERTY ON FIRST APPOINTMENT / FOR THE YEAR ENDING 31.12.2019. 31.12.2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्थाई सम्पत्ति का विवरण

कृपया 31.12.20 19 तक की सभी स्थाई सम्पत्ति का विवरण दीजिए। (Please give details of all immovable property up to 31.12.2019)

1. कर्मचारी का पूरा नाम तथा सेवा जिससे सम्बन्धित हैं। Name of Employee (in full) and service to which the officer belongs DR. SHIVSAL ATIT DIXIT, LITM, PUNE

2. वर्तमान पद T Present Pay Rs. 1, 30, 600 -

NE.	DR. S. A. DIXIT	दिनांक/ Date: ** DR · ·	In case where it is not possible to assess the value accurately, the approximate in case where it is not possible to assess the value accurately, the approximate in case where it is not possible to assess the value accurately, the approximate in case where it is not possible to assess the value accurately, the approximate in case where it is not possible to assess the value accurately, the approximate in case where it is not possible to assess the value accurately, the approximate in case where it is not possible to assess the value accurately, the approximate in case where it is not possible to assess the value accurately, the approximate in case where it is not possible to assess the value accurately, the approximate in case where it is not possible to assess the value accurately, the approximate in case where it is not possible to assess the value accurately, the approximate in case where it is not possible to assess the value accurately, the approximate in case where it is not possible to a second accurately accurately in case where it is not possible to a second accurately in case where it is not possible to assess the value accurately, the case where it is not possible to a second accurately, the case where it is not possible to a second accurately in case where it is not possible to a second accurately in case where it is not possible to a second accurately in case where it is not possible to a second accurately in case where it is not possible to a second accurately in case where it is not possible to a second accurately in case where it is not possible to a second accurately in case where it is not possible to a second accurately in case where it is not possible to a second accurately in case where it is not possible to a second accurately in case where it is not possible to a second accurately in case where it is not possible to a second accurately in case where it is not possible to a second accurately in case where it is not possible to a second accurately in case where it is not possible to a seco	accurately, art-terms lea	s the value ndicated.	In case where it is not possible to assess the value accurately, the applicate in case where it is not possible to assess the value accurately, the applicate in case where it is not possible to assess the value accurately, the application case where it is not possible to assess the value accurately, the application case where it is not possible to assess the value accurately, the application case where it is not possible to assess the value accurately, the application case where it is not possible to assess the value accurately, the application case where it is not possible to assess the value accurately, the application case where it is not possible to assess the value accurately, the application case where it is not possible to assess the value accurately, the application case where it is not possible to assess the value accurately, the application case where it is not possible to assess the value accurately, the application case where it is not possible to assess the value accurately, the application case where it is not possible to a second case where it is not possible to a second case where it is not possible to a second case where it is not possible to a second case where it is not possible to a second case where it is not possible to a second case where it is not possible to a second case where it is not possible to a second case where it is not possible to a second case where it is not possible to a second case where it is not possible to a second case where it is not possible to a second case where it is not possible to a second case where it is not possible to a second case where it is not possible to a second case where the case w	In case where relation to pre
	110118	हस्ताक्षर / Signature :	1. जहाँ मूल्य निर्धारण ठीक-ठाक नहीं हो सकता, बतेमान स्थितिया से सम्बान्यत अर्जास्त १ िन्नाया जाना चाहिए।	न स्थितिया	तकता, वर्तमा	रण ठीक-ठाक नहीं हो ग नाहिए।	1. जहाँ मूल्य निर्धारण ठी निकास जाना चाहिए।
200	4	0	ने नाजिस्त अनुमानित मल्य	P	,		
ZA	NA NA	ZA	Z A	NA A	Z A	NA	NA
					·	2	1
		o	5	4	J.	No. etc.)	
00	7	TROTTI WITOTH acdames.				No., Plot No. Klidsia	
Remarks	मम्पति म बार्षिक आय Annual Income from the property	मे, पट्टा या भेंट या अन्य की तारीख व ई, नाम एवं r by purchase, ritance, gift or of acquisition ails of persons	यदि आपके अपने नाम पर नहीं है तो बताएंकि किसके नाम पर हैऔर मरकारी कर्मचारी के साथ उसका क्या सम्बन्ध है। If not in own name state in whose name held and his/her relationship to the Govt. servant	वर्तमान मूल्य Present Value	रिरे भूमि भूमि (भूमि का क्षेत्रफल) Land (area of	सम्पत्ति का नाम और ब्यौरे Name & details of property घर तथा अन्य भवन (जैसे घर नं., प्लॉट नं., खसरा नं. जादि.) Housing & other Building(viz. House	शिला, उप-मंडल, तालुका और गाँव जहाँ सम्पत्ति स्थित है। Name of District, Sub division, Taluka and Village in which property is situated.
)			11030111111		7	くっていればれ	2. 10 11 1